

एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देशन में साइबर सेल टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विगत 07 माह में ठगी किये हुए कुल 36,74,132 रुपये (छत्तीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ बत्तीस रुपये मात्र) को आवेदकों के खातों में कराया गया वापस ।

◆□ ■ विगत 07 माह में 49 व्यक्तियों के खातों से कुल 46,53,579/- रुपये की धनराशि ठगी करके साइबर ठगों द्वारा निकाली गयी है जिसमें से साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 36,74,132 रुपये आवेदकों के खाते में कराया जा चुका है वापस, शेष पर कार्यवाही जारी ।

◆□ ■ साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुत जनपद के 55 फर्जी सोशल मीडिया एकाउन्ट्स को भी कराया गया है सस्पेन्ड ।

दिनांक 01-01-2022 से 31-07-2022 तक साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न तरीके से फ्रॉड करते हुए जनपद के 49 व्यक्तियों के खातों से कुल 46,53,579/- रुपये की धनराशि निकाली गयी थी । साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्तियों द्वारा उनके साथ हुये फॉड के सम्बंध में सम्बन्धित थानों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कैम्प कार्यालय स्थित साइबर सेल में प्रार्थना दिया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में जनपदीय साइबर सेल टीम ने सम्बंधित बैंकों व अधिकारियों से सम्पर्क कर विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि में से 36,74,132 रुपये की धनराशि वापस करा दी गयी है । साथ ही साइबर सेल द्वारा फर्जी सोशल मीडिया एकाउन्ट पर कार्यवाही करते हुये अब तक कुल 55 खातों को बन्द करा दिया गया है । जिससे फर्जी सोशल मीडिया एकाउन्ट बना कर लोगों को धमकी देने वाले या परेशान करने वालों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी है । इस सराहनीय कार्य हेतु समय-समय पर आमजनों द्वारा फिरोजाबाद पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है ।

□ क्या आप जानते हैं कि साइबर ठगी होने के उपरान्त पहले 24 ऑवर को गोल्डन ऑवर कहा जाता है आपके पैसा को ब्लाक कराने हेतु ।

□ अगर आपके साथ कोई भी साइबर ठगी होती है तो आपके द्वारा ठगी होने के बाद पहले 24 घण्टे के अन्दर सूचना साइबर सेल को दे दी जाती है तो आपका पैसा ब्लाक करा दिया जाता है और आपका पैसा मिलने के अवसर ज्यादा बनते हैं ।

□ साइबर ठगी होने पर सम्बन्धित थाने/ हेल्पलाइन न0-1930 एवं जनपद फिरोजाबाद के साइबर सेल के मो0न0 9528029633,9456878005 पर तत्काल लिखित सूचना दें ताकि आपके पैसे को समय से ब्लाक कराया जा सकें और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा सकें ।

आप सभी फ़िरोजाबाद के सभ्रान्त नागरिक ध्यान दें किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी , बैंक पिन, या बैंकिंग से सम्बन्धित कोई भी जानकारी न शेयर करें, अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं।

सुरक्षित रहें सतर्क रहें, फ़िरोजाबाद पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर ।
